



Kitex Garments Limited
Regd. Office: F-10, Sector-10, Noida-201301, Uttar Pradesh, India

Phone: +91 8454 412023; Fax: +91 844 8882 E-mail: securities@kitexindia.com; Website: www.kitexindia.com

NOTICE

Pursuant to clause 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 3, 2018 at the Registered Office of the Company Inter-alia to take on record the unaudited financial results of the Company for the 3rd Quarter and Nine months ended December 31, 2017.

The said notice may be accessed on the Company's website at the link: www.kitexindia.com and may also be accessed on the website of the stock exchanges at the link: www.mseindia.com

For Kitex Garments Limited
Chairman and Managing Director
Kirkatnagar
February 1, 2018

K G DENIM LIMITED

CIN: L71157TG1992PLC00378
Regd. Office: Then Thirumalai, Jayapalayam, Coimbatore – 641 302.
Phone: +91 4242-23260; Fax: +91 4242-54400

Website: www.kgdenim.com

NOTICE OF THE BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 14th February, 2018 at Sri Kannan Hills premises, Sowpariyal, Coimbatore – 641 028, interalia, to consider and to take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2017.

Details are available at Company website : www.kgdenim.com

Stock Exchange Webs: www.bseindia.com

For K G DENIM LIMITED
S/o: Avisesh Chandra Dugal
Place: Kharar (Mohali) (Management Director)
Date: 21/02/2018

K G BALAKRISHNAN
EXECUTIVE CHAIRMAN



QUADRANT TELEVENTURES LIMITED

CIN: L80000TN1946PLC117474
Regd. Office: Autohome Infotech Pvt. Ltd., Maduravoyal, Chengalpattu - 603106
Tel: +91-44-2207581-9, E-mail: secretary@connectme.in, www.connectme.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 14th February, 2018 at Sri Kannan Hills premises, Sowpariyal, Coimbatore – 641 028, interalia, to consider and to take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2017.

Details are available at the website of the Company (www.connectme.in) and will also be available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).

By order of the Board of Directors
For QUADRANT TELEVENTURES LIMITED
S/o:
AMIT VERMA
COMPANY SECRETARY
Date: February 02, 2018

WELCAST STEELS LIMITED

CIN: L27114GJ1972PLC008827
Regd. Office: 115-116, G.V.M. Estate, Odhav Road, Ahmedabad 382 415.

Ph. 079-22901078, Fax: 079-22901077.

Website: www.welcaststeels.com; Email: info@welcaststeels.com

Unaudited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2017

(In Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	
		31.12.2017	31.12.2016
1	Total Income from operations (Gross)	5,648.91	5,534.07
2	Net Profit (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(32.13)	104.64
3	Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(32.13)	104.64
4	Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.61	64.94
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(5.19)	(9.63)
6	6 (Equity Share Capital)	63.82	63.82
7	Earnings Per Share(EPS) of 10/- each (for continuing and discontinued operations)	0.08	0.18
a.	Basic & Diluted EPS before Extra ordinary items (in ₹)	0.08	22.45
b.	Basic & Diluted EPS after Extra ordinary items (in ₹)	0.08	22.45

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarterly months ended December 31, 2017 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Result for the Quarterly months ended December 31, 2017 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.welcaststeels.com).
By Order of Board of Directors
For WELCAST STEELS LTD.
SD/-
VINOD NARAIN
CHARMAN
DIN: 00055280

Place: Bangalore
Date: 01 February 2018



THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED

(Formerly known as Mandhana Retail Ventures Limited)
CIN: U54999DL2001PLC123456

Registered Office Plot No. F-132, M.A.D.C., Tengore Industrial Area, Belgaum, Distt. - 582106

Corporate Office: 603-D, Penthru, Central Circle, D. S. Asst. Road, Parle, Mumbai - 400023

Tel: +91-22-43339161 & Fax: +91-22-4330504

Email: cfo@mandhanaretail.com & Website: www.mandhanaretail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 14th February, 2018, Inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2017.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.mandhanaretail.com and on the stock exchanges' website at www.mseindia.com and www.bseindia.com.

For THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED
Formerly known as Mandhana Retail Ventures Limited
S/o:
SANOOETA MANDHANA
(MANAGING DIRECTOR)
DIN: 00094672

Place: Mumbai
Date: 01 February, 2018

Head Office:LOKMANGAL 1501,
SHIVAJINAGAR, PUNE-411005

Addendum to the Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of the Bank to be held on 16th February, 2018 at 10:30 am at Appoosha Joeg Hall, Bank of Maharashtra, Lemington, 101, Shreepuram, Pune – 411003.

Admittance of Agents/Attorneys/Delegates
Formerly known as Mandhana Retail Ventures Limited
S/o:
SANOOETA MANDHANA
(MANAGING DIRECTOR)
DIN: 00094672

This is to inform you that the Bank has received a communication dated 26 January, 2018 from Government of India of its intent to subscribe to Rs.1,173 crores as preferential equity, which will increase the amount of Rs.650 crore for which the Bank had already allotted shares on 10th January, 2018.

The Board of Directors of the Bank had on 31 January, 2018 taken note of the communication, approved the issue and allotment of further equity shares of Bank to Government of India (President of India) and decided to include in its additional Agenda Item No.3 for seeking approval of the shareholders of the Bank at the ensuing EGM.

The list of the Specific Resolution along with the Explanatory Statement is available on the website of the Bank (www.mandhanaretail.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited, the holding agency of the Bank at <http://www.ecwidgiving.com>. The addendum has also been sent to the Stock Exchanges. The Addendum to the Notice is also being emailed to shareholders whose registered email id's are available via the Bank/RTA and is also being sent through couriers to other shareholders.

In view of the above, the capital of Government of India, the public shareholding in the Bank will reduce to 12.00% of the total paid up capital of Bank. In terms of Section 93(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1978, as the public shareholding is less than 15%, the Bank is entitled to elect only one Director from amongst shareholders other than the Central Government. At present, Bank is already having One Shareholder Director on the Board of the Bank and there is no additional Director.

In view of the same, the Board of Directors at their meeting held on 31st January, 2018, have WITHDRAWN the Agenda Item No.2 relating to Election of One Director from amongst shareholders other than the Central Government. ACCORDINGLY, ALL FORMALITIES LEADING TO THE ELECTION ALSO STAND CANCELLED FORTHWITH. Only Agenda Item No.1 and additional Agenda Item No.3 will now be transacted at the EGM to be held on Friday, 16th February, 2018 at Pune.

For Bank of Maharashtra

(R.L. Phadnis)
General Manager (Operations)

Date: 01.02.2018
Place: Pune

SUMITA BOMBS & HOLDINGS LIMITED

408, Street 3, Floor 4, Kolte Patil World City, 4th Floor, A Wing, New Mahalaxmi, Opp. Liberty Cinema, Mumbai - 400 020.

Mobile: +91 91 3125001, +91 91 3125000

Website: www.sbh.in

CIN: L26599MH2008PLC005697

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 14th February, 2018 at the Registered Office of the Company at 408, Street 3, Floor 4, Kolte Patil World City, 4th Floor, A Wing, New Mahalaxmi, Opp. Liberty Cinema, Mumbai - 400 020, interalia, to consider and take on record the unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2017 and any other matter with the permission of the Board of Directors.

The information contained in this notice is also available on the company's website viz. www.sbh.in and on the stock exchange website exchange at www.mseindia.com & www.bseindia.com.

For Sumita Bombs & Holdings Limited
S/o: Avinash Chandra Dugal
Place: Kharar (Mohali) (Management Director)
Date: 21/02/2018

P.H. CAPITAL LIMITED

Regd. Office: 6/F, Kader House, 10th Floor, A Wing, New Mahalaxmi, Opp. Liberty Cinema, Mumbai - 400 020.

Mobile: +91 91 3125001, +91 91 3125000

Website: www.phcapital.in

CIN: L26599MH2008PLC005697

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 14th February, 2018 at the Registered Office of the Company at 6/F, Kader House, 10th Floor, A Wing, New Mahalaxmi, Opp. Liberty Cinema, Mumbai - 400 020, interalia, to consider and take on record the unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2017 and any other matter with the permission of the Board of Directors.

The information contained in this notice is also available on the company's website viz. www.phcapital.in and on the stock exchange website exchange at www.mseindia.com & www.bseindia.com.

For P.H. Capital Limited
S/o: P. Datal
Place: Mumbai
Date: 01.02.2018

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED
CIN - L211902MH1055PLC015196

Regd. Off: 113A, First Floor, Antech Bhawan, 22, Kamathipura, Maruti Marg, Mumbai - 400 092.

Phone No.: 022-24526330, Fax: 022-24526375

E-Mail ID: complaints@uniteddrilltools.com

Website: www.uniteddrilltools.com

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 09 February, 2018, to inter-alia consider, approve and take on record the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2017.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company viz. www.uniteddrilltools.com and on the stock exchange website exchange at www.mseindia.com & www.bseindia.com.

For United Drilling Tools Limited
S/o: P. Datal
Place: Mumbai
Date: 02.02.2018

TECHOFAB INDUSTRIES LTD

Regd. Off: 907, East Avenue, Sector 14, P.O. Box No. 10109, Mumbai - 400 051

CIN: L74702MH1971PLC005172

Phone No.: 022-24510000, Fax: 022-24510001

E-Mail ID: info@techofab.com

Website: www.techofab.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 12th February, 2018 at 09:00 AM, at the Corporate Office of the Company to, inter-alia, consider and take on record the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2017.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company at www.techofab.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com & www.mseindia.com.

For Techofab Industries Ltd
S/o: P. Datal
Place: Mumbai
Date: 11.02.2018

PRANDE METAL INDUSTRIES LTD

CIN: L26599MH1998PLC005141

Regd. Office: 907, East Avenue, Sector 14, P.O. Box No. 10109, Mumbai - 400 051

Phone No.: 022-24510000, Fax: 022-24510001

E-Mail ID: pranade@pranade.com

Website: www.pranade.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 16th February, 2018 at the Corporate Office of the Company to, inter-alia, consider and take on record the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2017.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company at www.pranade.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com & www.mseindia.com.

For Pranade Metal Industries Ltd
S/o: P. Datal
Place: Mumbai
Date: 11.02.2018

QUASAR INDIA LIMITED

Regd. Off: 324, First Floor, Apparao Building, 10th Main, 10th Cross, M.G. Road, Bangalore - 560 001

E-Mail: quasar123@gmail.com, www.quasarindia.com

Phone: 080-22165100, 080-22165101

Website: www.quasarindia.com

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 17th February, 2018 at 09:00 AM, at the Corporate Office of the Company to, inter-alia, consider and take on record the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2017.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company at www.quasarindia.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com & www.mseindia.com.

For Quasar India Limited
S/o: P. Datal
Place: Mumbai
Date: 11.02.2018

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 17th February, 2018 at 09:00 AM, at the Corporate Office of the Chaudhary India Limited to, inter-alia, consider and take on record the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2017.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company at www.chaudharyindia.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com & www.mseindia.com.

For Chaudhary India Limited
S/o: Sudhir Singh
Place: Mumbai
Date: 11.02.2018

BALI BIOTS (INDIA) LIMITED

CIN: L40199MH1998PLC022109

Regd. Off: 201, West Avenue, Sector 20, P.O. Box No. 10109, Mumbai - 400 070

Phone No.: 022-24410145, Fax: 022-24410146

E-mail: balibiotics@gmail.com

Website: www.balibiotics.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 16th February, 2018 at 09:00 AM, at the Corporate Office of the Company to, inter-alia, consider and take on record the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2017.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company at www.balibiotics.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com & www.mseindia.com.

For Bali Biots (India) Limited
S/o: Sudhir Singh
Place: Mumbai
Date: 11.02.2018

JL CONSULTING (INDIA) LIMITED

CIN: L74702MH1998PLC005141

Regd. Off: 907, East Avenue, Sector 14, P.O. Box No. 10109, Mumbai - 400 051

Phone No.: 022-24510000, Fax: 022-24510001

E-Mail ID: jl_consulting@rediffmail.com

Website: www.jlconsultingindia.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 17th February, 2018 at 09:00 AM, at the Corporate Office of the Company to, inter-alia, consider and take on record the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2017.

The information contained